

इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ

जोधपुर डिस्कॉम द्वारा तैयार की जाने वाली निम्नलिखित सूचनाएँ कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हैं जिन्हें कार्यावधि के दौरान कम्प्यूटर पर रखा जाता है तथा कार्य पूर्ण हो जाने अथवा सूचना के अवधि पार हो जाने के बाद उसे कम्प्यूटर से हटा दिया जाता है-

1. जोधपुर डिस्कॉम द्वारा जारी की जाने वाली समस्त निविदाएँ वैबसाइट [www.rajenergy.com](http://www.rajenergy.com) पर निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।
2. जोधपुर डिस्कॉम द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के विद्युत बिल प्राइवेट कम्प्यूटर सर्विस से संविदा के आधार पर तैयार करवाये जाते हैं।
3. मुख्य अभियंता (सी.पी.एम.) जोधपुर द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न परिपत्र कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते हैं।
4. फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा निगम मुख्यालय पर की जाती है, इसकी सूचनाएं भी अधिशाषी अभियंता (एम. आई. एस.) के निर्देशन में कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हैं।
5. जोधपुर डिस्कॉम ने जोधपुर एवं बीकानेर संभाग मुख्यालयों पर उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने एवं उन्हें दूरस्त करने के लिये कॉल सेंटर स्थापित किये हैं। ये कॉल सेंटर पूरी तरह कम्प्यूटाइज्ड हैं। यहाँ समस्त सूचनाओं का संधारण कम्प्यूटर पर किया जाता है।
6. जोधपुर डिस्कॉम की पी. पी. एम. शाखा द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यों एवं कार्यक्रमों- यथा राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना, त्वरित विकास योजना, आदि के प्रस्ताव तैयार करके भारत सरकार, राज्य सरकार, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, राज्य विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य संस्थाओं को भिजवाये जाते हैं। ये सभी प्रस्ताव कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते हैं।
7. जोधपुर डिस्कॉम की लेखा शाखा द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किये जाने वाले बजट प्रस्ताव भी कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते हैं।
8. जोधपुर डिस्कॉम की लेखा शाखा द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक लेखा प्रतिवेदन भी कम्प्यूटर पर तैयार किये जाते हैं।
9. जोधपुर डिस्कॉम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की मासिक कार्य प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में विचार विमर्श हेतु समस्त सूचनाएँ सांख्यिकी शाखा द्वारा अधिशाषी अभियंता (एम. आई. एस.) के निर्देशन में कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हैं।
10. जोधपुर डिस्कॉम के निगम मुख्यालय में स्थित विभिन्न कार्यालयों, संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालयों तथा अधीक्षण अभियंता कार्यालयों द्वारा विभिन्न कार्यालयों के मध्य होने वाले पत्राचार एवं दूसरी एजेंसियों के मध्य होने वाले पत्राचार कम्प्यूटर पर तैयार करके भिजवाये जाते हैं।
11. जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रतिमाह तकनीकी गृह पत्रिका "विद्युत वितरण संदेश" का प्रकाशन किया जाता है। प्रत्येक अंक की सामग्री कम्प्यूटर पर तैयार की जाती है।
12. निगम मुख्यालय द्वारा जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियां जनसम्पर्क कार्यालय में कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हैं।